

## पत्थर की राधा प्यारी पत्थर के कृष्ण मुरारी

पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी  
पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी  
पत्थर की नार अहिल्या, पग से श्री राम ने तारी  
पत्थर के मठ में बैठी, मैया हमारी

चौदह बरस वनवास में भेजा, राम लखन सीता को,  
पत्थर रख सीने दशरथ ने  
पुत्र जुदाई का भी पत्थर सहा देवकी माँ ने,  
कैसी लीला रची कुदरत ने  
पत्थर धन्ने को मिला, जिसमे ठाकुर बसा  
पत्थर के जगह जगह पर भोले भंडारी

नल और नील जो लाए पत्थर, राम लिखा पत्थर पे,  
पत्थर पानी बीच बहाए  
तैर गए पत्थर पानी में राम सेतु के आए  
मेरे राम बहुत हर्षिये  
पत्थर जग में महान, इसको पूजे जहान  
इसकी तो पूजा करती यह दुनिया सारी

ले हनुमान उड़े जब पत्थर संजीवनी ले आये  
सारे वीर पुरुष हर्षिये  
वो ही पत्तर बृज भूमि में गोवर्धन कहलाये  
जो है ऊँगली बीच उठाये  
मंदिरों में भी तो, यही पत्थर जुड़े  
पत्थर की नाव में देखो पत्तर पतवारी

<https://bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/1558/title/patthar-ki-radha-pyari-patthar-ke-krishna-murari>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |